



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं० पटना 1178) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

21 नवम्बर 2014

सं० 1095—बाबा पातालेश्वरनाथ मन्दिर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—3472 है। इस मन्दिर की सुव्यवस्था एवं विकास के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापक—565, दिनांक 23.06.2009 द्वारा एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था। इस प्रकार दिनांक 22.06.2014 को उक्त न्यास समिति के कार्यकाल का अवसान हो गया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में बाबा पातालेश्वर नाथ मन्दिर न्यास हाजीपुर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 के तहत एक विस्तृत योजना का निरूपण एवं इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए बाबा पातालेश्वरनाथ मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

#### योजना

- (1) अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नामा “बाबा पातालेश्वरनाथ मंदिर न्यास योजना” होगा और इसे मूर्त रूप देने तथा संचालन हेतु गठित न्यास समिति का नाम “बाबा पातालेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति, हाजीपुर” होगा।
- (2) बाबा पातालेश्वरनाथ मंदिर एवं इसकी समस्त चल—अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन, प्रशासन एवं संचालन का अधिकार बाबा पातालेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति में निहित होगा।
- (3) इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य मंदिर में पूजा—पाठ, अर्चना व अभिषेक, राग—भोग तथा उत्सव—समैया का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करना होगा।
- (4) मंदिर में प्राप्त होने वाली समग्र राशि का लेखा संधारण किया जायेगा और वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा जिसकी एक प्रति पर्षद को भेजी जायेगी।

- (5) मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंट-पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढावे की राशि डाली जायेगी जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाते में जमा की जायेगी।
- (6) न्यास परिसर में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक एवं मांगलिक संस्कारों के लिए निर्धारित राशि ही ली जायेगी जिसका प्राप्ति रसीद दिया जायेगा और सम्यक् लेखा संधारण होगा।
- (7) न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।
- (8) न्यास समिति का कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
- (9) न्यास समिति न्यास की आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
- (10) न्यास समिति अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए न्यास की आय-व्यय विवरणी, बजट, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त एवं पर्षद को देय शुल्क की राशि का सम्यक् प्रेषण करेगी।
- (11) अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे तथा निर्णय बहुमत से होगा।
- (12) न्यास समिति के सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के लिए जबाबदेह होंगे।
- (13) इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन या आकस्मिक रिकित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
- (14) न्यास समिति का कोई सदस्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ उठाते हुये पाये जायेंगे अथवा उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगा तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

1.	जिला पदाधिकारी	वैशाली (हाजीपुर)	—	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री प्रभुनाथ प्रसाद	जिला एवं सत्र न्यायायाधीश (अ0 प्र0), अंदरकिला, हाजीपुर।	—	उपाध्यक्ष
3.	श्री संजय कुमार सिंह	पिता-स्व0 वैजनाथ सिंह पी0एच0ई0डी0 कॉलोनी, पो0- हाजीपुर, वैशाली	—	सचिव
4.	श्री विजय कुमार	पिता-स्व0 रघुनाथ प्रसाद सर्राफ वीणापाणी सदन (शुक्लायन मन्दिर के पास) पो0- हाजीपुर, वैशाली।	—	सदस्य
5.	प्रो0 रामलखन प्रसाद	पिता- स्व0 रामपारस साह कोनहारा घाट, पो0-हाजीपुर, वैशाली	—	सदस्य
6.	प्रो0 श्रीमती नीति सिंह	पिता-श्री अवध किशोर सिंह बुद्धा कॉलोनी, अदलवाड़ी, पो0-हाजीपुर, वैशाली।	—	सदस्य
7.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	ग्राम-माया सदन, आदर्श कॉलोनी, दिग्धी कला, वैशाली।	—	सदस्य
8.	श्री जगनारायण पासवान उर्फ जगधन पासवान	पिता-स्व0 नगीना पासवान लालकोठी के पास, हेलाबाजार, पो0-हाजीपुर, वैशाली।	—	सदस्य
9.	श्री अवधेश कुमार	पिता-श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम-चकवारा, पो0-हाजीपुर, वैशाली।	—	सदस्य
10.	श्री उमेश कुमार राय	पिता- स्व0 महेन्द्र राय मुहल्ला-लोदीपुर, मालीपुर, पो0-हाजीपुर, वैशाली।	—	सदस्य

- |     |                  |  |   |       |
|-----|------------------|--|---|-------|
| 11. | श्री जगदीश चौधरी | चौहट्टा, मगरहट्टा, पो0-हाजीपुर,<br>वैशाली। | — | सदस्य |
|-----|------------------|--|---|-------|

यह योजना दिनांक 01.12.2014 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

\_\_\_\_\_  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1178-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>